

आज दिनांक 06.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत नाथनगर से इवेन्ट संख्या 14818 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों नाम पता ( 1- अनिरुद्ध पुत्र जवाहर, 2- बंटी पुत्र मुरारी गौड़ निवासीगण नाथनगर थाना महुली ) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 01 मिनट में पहुँचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** –आरक्षी जितेन्द्र चौधरी, आरक्षी रामदुलारे यादव, हो0चा0 नागेन्द्र प्रसाद ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 66 वाहनो से 52,500 रु0 सम्मन वसूल किया गया**  
आज दिनांक 06.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 66 वाहनो से 52,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।